

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2932]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 2932]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3911(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 10 जनवरी, 2013 को का.आ. संख्या 124 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा कर्नाटक राज्य के चिकबल्लाकपुरा और कोलार जिले में किमी. 343.800 से कि. मी. 486.690 (मादुगिरी – आ. प्र. सीमा खंड) तक के भूमि खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 के निर्माण (चौड़ीकरण/2 लेन), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 05 जून, 2013 को राज्य स्तर के स्थानीय समाचार पत्र “डेक्कन हेराल्ड” (अंग्रेजी), “प्रजावाडी” (कन्नड़) में प्रकाशित किया गया है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी को आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा।

और इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ उपाबद्ध उक्त, अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के तुमकुर, चिकबल्लादपुरा और कोलार जिले में कि. मी. 343.800 से कि. मी. 486.690 (मादुगिरी – आ. प्र. सीमा खंड) तक के भूमि खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
1	चिकबल्लापुरा	गौरीबिदनूर	गुंडापुरा	12/6	निजी	असिंचित	0.4302	सी. शिवशंकर राव सुपुत्र गोपाल राव
				13/1	निजी	असिंचित	0.6372	कमलम्मा पत्नी कमैया, कादिरप्पा सुपुत्र न्यातेना, मरक्का सुपुत्र न्यातेना, गंगम्मा सुपुत्र चिक्कागंगप्पा, चिक्कागंगम्मा सुपुत्र चिक्कागंगप्पा, ई. सी. कोटिरेड्डी सुपुत्र सुब्बारेड्डी, गोपी सुपुत्र कमलम्मा, कादिरप्पा सुपुत्र गंगप्पा
				13/2ए1				
				13/2ए2				
				13/2बी2				
				13/3				
				14/1ए1	निजी	असिंचित	0.0303	हनुमंतरायप्पा सुपुत्र ओबालप्पा
				14/1ए2	निजी	असिंचित	0.303	अंजनप्पा, हनुमंतरायप्पा , संजीवरायप्पा, नरसिंहमप्पा,
				27	निजी	सिंचित	0.0732	नारायणस्वामी, जयन्ना सुपुत्र चिक्कातिमप्पा सी. एच. प्रकाश सुपुत्र

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
								हनुमंथप्पा
				28/1	निजी	सिंचित/ बगायेत	0.1001	गोविंद गौड़ा, नारायणप्पा, भाग्यम्मा
				28/2	निजी	सिंचित	0.106	राजेंद्र प्रसाद सुपुत्र हनुमंथप्पा
				28/3	निजी	सिंचित	0.0051	सी. एच. देवराजैय्या सुपुत्र हनुमंथप्पा
				29/4	निजी	सिंचित	0.3283	सी. सी. नारायणस्वामी, सी. सी. जयन्ना
				29/5	निजी	सिंचित	0.1237	नरसिम्हैया, गंगप्पा, डोला गंगप्पा, कादिरप्पन और संस
				29/6	निजी	सिंचित	0.1313	नरसिम्हैया, गंगप्पा, डोला गंगप्पा, कादिरप्पन और संस, नरसिम्हैया ब्रदर्स
				33/1	निजी	सिंचित	0.0328	श्रीधरा, गंगप्पा, कृष्णैया,
				33/2			0.0909	लक्ष्मीनरसप्पा, गंगप्पा,
				33/3			0.2424	कादिरप्पा, नरसप्पा
				45/1	निजी	सिंचित	0.0328	गोविंद गौड़ा,
				45/2	निजी	सिंचित	0.0177	गोविंद गौड़ा,
				46	निजी	सिंचित	0.0621	राजेंद्र प्रसाद
				47	निजी	सिंचित	0.0657	लक्ष्मम्मा, पुत्तारंगम्मा, श्रीनिवास मूर्ति
				48/1बी	निजी	सिंचित	0.0748	पपन्ना
				48/2बी	निजी	सिंचित	0.0253	येलप्पा
				48/3बी	निजी	सिंचित	0.0152	येलप्पा
				49/2	निजी	सिंचित	0.101	रंगम्मा, गंगम्मा
				50/1	निजी	सिंचित	0.0909	चन्नाराजैय्या
				50/2	निजी	बगायेत	0.101	गंगैय्या
				50/4	निजी	सिंचित	0.0653	पुत्तारंगम्मा, जी. नारायणस्वामी, लक्ष्मम्मा
				50/5	निजी	सिंचित	0.0653	जयम्मा
				50/6	निजी	सिंचित	0.0631	नागरथनम्मा
				51	निजी	बगायेत	0.1313	चिक्कातिमैय्या, अश्वथप्पा, वेंकटेशमे गौड़ा
				52/1	निजी	सिंचित	0.1919	नंजुनदप्पा
				52/2				वेंकटेशमप्पा
				53/2	निजी	सिंचित	0.005	एन. नंजम्मा, वनजक्षम्मा

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
				54/1	निजी	सिंचित/ बगायेत	0.0505	वनजक्षम्मा, रतनम्मा
				54/2	निजी	सिंचित/ बगायेत	0.0657	वनजक्षम्मा, रतनम्मा
				54/3	निजी	सिंचित	0.0505	रतनम्मा, वनजक्षम्मा,
				65	निजी	सिंचित	0.005	मंजुनाथ
				66/1ए	निजी	असिंचित	0.0505	शांताकुमारी
				66/1बी	निजी	असिंचित	0.09	वेंकटचलपाथी
				66/2	निजी	सिंचित	0.0808	लक्ष्मी नरसम्मा
				66/3	निजी	सिंचित	0.0512	गंगम्मा
				66/4	निजी	सिंचित	0.0505	सत्यम्मा
				66/5	निजी	सिंचित	0.0303	गंगप्पा, डोलागंगप्पा, कालप्पा
				66/6	निजी	सिंचित	0.0202	गंगप्पा, डोड्डा गंगप्पा,
				67	निजी	सिंचित	0.005	मुदैय्या
				68	सरकारी	खराब	0.303	सरकारी गोमल भूमि
				69	निजी	असिंचित	0.1093	रतनम्मा,
				92	निजी	सिंचित	0.1818	ओबालप्पा, ई. एस. रमेश कुमार
				93/2	निजी	बाग	0.0101	गंगप्पा
				93/3	निजी	बाग	0.0505	गंगप्पा, लक्ष्मम्मा
				94	निजी	बाग/सिंचित	0.0364	गंगप्पा
				95/1	निजी	बाग/सिंचित	0.0152	गंगप्पा
				95/2	निजी	बाग	0.0225	गंगप्पा
				96	निजी	बाग/सिंचित	0.0404	गंगप्पा
				97	सरकारी	खराब	0.009	सरकारी खराब
				99/1	निजी	बाग	0.0649	गंगप्पा
				99/2	निजी	बाग/सिंचित	0.1414	कंचनम्मा
			मदनाहाली	110	निजी	असिंचित	0.3	येरप्पा, हनुमंतरायप्पा, रामकृष्णप्पा, गंगाधरप्पा, वेंकटरमणप्पा, गंगाधरप्पा
				111/1	निजी	असिंचित	0.08	रंगम्मा, गंगाधरप्पा, नागप्पा, लक्ष्मम्मा,
				111/2	निजी	असिंचित	0.0664	नागप्पा
				111/3	निजी	असिंचित	0.0606	गंगाधरप्पा, बीरप्पा, संजीवरायप्पा

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
				118	सरकारी	खराब	0.0303	सरकारी टैंक बेड
				122	सरकारी	खराब	0.0404	सरकारी खराब
				124	सरकारी	खराब	0.0152	सरकारी खराब
				147	सरकारी	खराब	0.0331	सरकारी खराब
				149	सरकारी	खराब गोमाला	0.2459	सरकारी खराब
				151	निजी / सरकारी	असिंचित	0.1494	सरकारी खराब और तीमैय्या
				151/पी1				
				278	निजी	असिंचित	0.1111	तीमैय्या
				279/1	निजी	असिंचित	0.1010	अर्चना
				279/2	निजी	असिंचित	0.0612	गंगम्मा, अश्वथम्मा
				288/1	निजी	असिंचित	0.0808	सिदम्मा
				288/2	निजी	असिंचित	0.0909	अमरावती
				288/3	निजी	असिंचित	0.0378	मारीस्वामी
				288/4	निजी	असिंचित	0.0505	येतम्मा
				289	निजी	असिंचित	0.0237	नरसिम्हैया
				299	निजी	असिंचित	0.0069	तिप्पक्का
				300	निजी	असिंचित	0.2071	गंगम्मा
				302	निजी	असिंचित	0.1010	महबूब बाशा
				303	निजी	असिंचित	0.1156	हनुमन्तपप्पा
				308/1	निजी	असिंचित	0.1010	चानम्मा, अश्वतनारायण, गंगादरप्पा, मल्लिकार्जुन, रवीन्द्रनाथ
				309/2	निजी	असिंचित	0.0808	नरसिम्हारेड्डी, लक्ष्मणरेड्डी, अश्वतनारायण रेड्डी
				310	निजी	असिंचित	0.0808	पद्मजा, नंदकिशोर
				311	निजी	असिंचित	0.0793	पद्मजा, नंदकिशोर
				312	निजी	असिंचित	0.0817	पद्मजा, नंदकिशोर
				313	निजी	असिंचित	0.1313	वेंकटरमणप्पा
			मित्तनहल्ली	15	निजी	असिंचित	0.2827	एपीएमसी गौरीविदनूर, सी.आर. वेंकटपति, शांतम्मा
			वीरा गोल्लाहल्ली	2/1	निजी	असिंचित	0.0707	गंगप्पा, गंगम्मा, वेंकटरमणप्पा, लक्ष्मम्मा
				4	निजी	बाग	0.0973	हनुमंत देवरू
				5/1	निजी	बाग	0.042	अश्वतनारायण रेड्डी

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
				5/2	निजी	बाग	0.0403	नागप्पा
				5/3	निजी	बाग	0.0505	नागप्पा
				6/1	निजी	असिंचित	0.0025	नागप्पा
				6/2	निजी	असिंचित	0.0227	नागप्पा
				6/3	निजी	असिंचित	0.0101	दासप्पा
				6/4	निजी	असिंचित	0.0126	लक्ष्मीकांतप्पा
				10	निजी	बाग	0.0291	के. ए. शंकरनारायण रेड्डी, लक्ष्मी देवम्मा
				11	निजी	बाग	0.1212	मुदप्पा, गंगम्मा
				67/1	निजी	असिंचित	0.6565	गंगप्पा, अश्वतप्पा, लक्ष्मीपति, चिक्कारंगप्पा, गंगाधरप्पा, श्रीनिवास
				67/2	निजी	असिंचित	0.0505	एम. मुशीर अहमद
			हीरेबिडनेरू	53/1	निजी	असिंचित	0.4242	न्यामत
				53/2	निजी	असिंचित	0.2222	न्यामत
				56/1	निजी	असिंचित	0.0757	रघुनाथ रेड्डी, हनुमंत रेड्डी, मंजुनाथ रेड्डी
				56/2	निजी	असिंचित	0.3046	रघुनाथ रेड्डी, हनुमंत रेड्डी, मंजुनाथ रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी
				60/1	निजी	असिंचित	0.3030	नरसम्मा, गंगम्मा, नरसप्पा, गंगा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी
				62/3	निजी	असिंचित	0.1490	शोभा एन रेड्डी
				62/4	निजी	असिंचित	0.3535	के. एच. कृष्णा रेड्डी
				63/3	निजी	असिंचित	0.1111	के. एच. सोमाशेखर रेड्डी
				63/4	निजी	असिंचित	0.0581	के. एच. सोमाशेखर रेड्डी
			कुरुबराहल्ली	31	निजी	असिंचित	0.0202	अंजनप्पा
				180/4	निजी	असिंचित	0.0505	एम.एन. मल्लिकार्जुन रेड्डी
		चिकबल्लापुरा	गोलाहल्ली	17	निजी	(एनएK)	0.1343	द्वारकानाथ रेड्डी, रामनरप्पनम ट्रस्ट
				41	निजी	(एनएK)	0.0322	द्वारकानाथ रेड्डी, रामनरप्पनम ट्रस्ट
		सिदलगट्टा	सिदलगट्टा	250	निजी	बाग	0.0657	अचप्पा, सिनप्पा, बालाकृष्णा, वेंकटेशप्पा सरकारी
				251/2	निजी	बाग	0.0294	मुनिसुब्बन्ना, सरकारी
		चिंतामणि	अमतागनहल्ली	24	सरकारी	असिंचित	0.0878	ग्रामीणों के आवासीय भवन

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
								निर्माण हेतु आरक्षित सरकारी भूमि
				25/1	निजी	असिंचित	0.1414	नारायणम्मा
				25/3	निजी	असिंचित	0.003	ए. एन. नरसिम्हा रेड्डी
				26	निजी	असिंचित	0.5177	ए. एस. वेंकट रेड्डी, वीईओ चिंतामणि, नारायण रेड्डी, कृष्णा रेड्डी
				27	निजी	असिंचित	0.0859	आर. नारायण रेड्डी
				28	निजी	असिंचित	0.0124	इनम भूमि
				29/1 29/2 29/3 29/4	निजी	असिंचित	0.0177 0.0581 0.0682 0.0934	गोपाल कृष्णा, वी. नागराजू, वेंकटेश, शंकरप्पा
				30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/7	निजी	असिंचित	0.7376	गोपाल कृष्णप्पा, वी. नागराजू, वेंकटेश, शंकरप्पा, ए. एन. नरसिम्हा रेड्डी, ए. एन. आश्वत रेड्डी, वीरम्मा
				33	निजी	असिंचित	0.0051	आर. नारायण रेड्डी, आर. रामाकृष्णा, अचम्मा, आदिनारायणरंगप्पा, नागराज, जयम्मा, रंगप्पा, ए. एल. नागराज
				34/1	निजी	असिंचित	0.0956	ए. सी. अंजनेया रेड्डी
				35	निजी	असिंचित	0.0303	आर. नारायण रेड्डी
				36	निजी	असिंचित	0.6829	आर. नारायण रेड्डी
				37/1	निजी	असिंचित	0.1010	गोपाल कृष्णप्पा
				37/2ए	निजी	असिंचित	0.6540	अचम्मा, आदिनारायणप्पा, ए. एल. नागराजू
				38	सरकारी	असिंचित	0.3131	सरकारी खराब
				94	सरकारी	असिंचित	0.0050	मेक्कम इनामती भूमि
				96	सरकारी	असिंचित	0.0966	तुरुमला देवरू
			उलूवकयाहल्ली	2	निजी	असिंचित	0.3156	रियाज अहमद
				3	निजी	असिंचित	0.5272	रियाज अहमद, मुनिराजू
				6	निजी	असिंचित	0.0101	अब्दुल लतीफ

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. हे. में	हितबद्ध व्यक्ति भू-स्वामी का नाम
				13	निजी	असिंचित	0.8232	गौस पीर, अनवर पाशा
				14/1	निजी	असिंचित	0.0479	वेंकटम्मा
				14/2	निजी	असिंचित	0.1545	वेंकटेशप्पा, मुनिवेंकट रायप्पा
				15/2	निजी	असिंचित	0.0556	के. नारायणस्वामी
				36	निजी	असिंचित	0.4448	अब्दुल लतीफ, एम. अनवर पाशा
2	कोलार	मुलबागल	कादरीपुरा	128	निजी	सिंचित	0.2605	सैयद खलीमुल्ला
				129	निजी	असिंचित	0.1035	शांतम्मा
				131/1	निजी	असिंचित	0.0455	सिकंदर बेग, जमील बेग
				132	निजी	असिंचित	0.3409	अब्दुल रहमान, राधाकृष्णप्पा
				133	निजी	सिंचित	0.4343	सुब्रमणि, शंकरप्पा
				134/1	निजी	असिंचित	0.3737	अब्दुल रहीम, पद्मावतम्मा
				135/1	निजी	सिंचित	0.1573	राजेंद्र, अंजरप्पा, रामचंद्रप्पा, शिव कुमार
			वीरूपक्षगुट्टाहल्ली	120/2ए 120/2बी	निजी	असिंचित	0.1717 0.2308	शरदम्मा, नागभूषण, अब्दुल आरिफ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई
				121/2	निजी	असिंचित	0.0606	तिपपन्ना, शंकरप्पा, मकबूल जॉन
				122/2	निजी	असिंचित	0.1505	एन. शरदम्मा, नागभूषण
				269	निजी	असिंचित	0.4272	अब्दुल रहुफ, जाबीरताज, अब्दुल रहमान
				270	निजी	असिंचित	0.0535	नागभूषण
				271/1	निजी	असिंचित	0.3838	सैयद तबरेज, जाबूरिश, सैयद शोयाबेद, सैयद शहीद
				271/3बी1	निजी	असिंचित	0.2020	एन. शरदम्मा, नागभूषण

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-12012/1/2011/एसपी(वि.-बैंक) (बी-2/ए-2)/पी-9]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S. O. 3911 (E).—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 124(E), dated the 10th January 2013 published in The Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub – Section (ii) and issued under Sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Two laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 234, on the stretch of land from Km. 343.800 to Km. 486.690 (Madugiri-A.P.Border Section) in the Districts of Chikkaballapura and Kolar in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in Local News Papers “Deccan Herald” (English) “Prajavani” (Kannada) dated the 05th June 2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been disposed off by the Competent Authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, the Special Land Acquisition Officer, National Highways Zone, Bangalore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling, within the stretch of land from Km. 343.800 to Km. 486.690 (Madugiri-A.P. Border Section) of National Highway No. 234 in State of Karnataka.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of Village	SurveyNo.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of the land owner interested persons
1	Chikkaballapura	Gowribidanur	Gundapura	12/6	Pvt.	Dry	0.4302	C. Shivashankara Rao S/o Gopala Rao
				13/1	Pvt.	Dry	0.6372	Kamamma W/o Kamaiah, Kadirappa S/o Nyatena, Marakka S/o Nyatena, Gangamma S/o Chikkagangappa, Chikkagangamma S/o Chikkagangappa, E.C. Kotireddy S/o Subbareddy, Gopi S/o Kamamma, Kadirappa S/o Gangappa
				13/2A1				
				13/2A2				
				13/2B2				
				13/3	Pvt.	Dry	0.0303	Hanumantharayappa S/o Obalappa
				14/1A1				
				14/1A2	Pvt.	Dry	0.303	Anjanappa, Hanumantharayappa, Sanjeevarayappa, Narasimhamappa
				27	Pvt.	Wet	0.0732	Narayanawamy, Jayanna S/o Chikkattimmappa C.H. Prakash S/o Hanumantappa
				28/1	Pvt.	Wet/ Bagayet	0.1001	Govinde Gowda, Narayanappa, Bhagyamma
				28/2	Pvt.	Wet	0.106	Rajendra Prasad S/o Hanumantappa
				28/3	Pvt.	Wet	0.0051	C.H. Devarajaiah S/o Hanumantappa
				29/4	Pvt.	Wet	0.3283	C.C. Narayana Swamy, C.C. Jayanna
				29/5	Pvt.	Wet	0.1237	Narasihmaiah, Gangappa, Dolla Gangappa, Kadirappa and Sons
				29/6	Pvt.	Wet	0.1313	Narasihmaiah, Gangappa, Dolla Gangappa, Kadirappa and Sons, Narasimaiah Brothers

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of Village	SurveyNo.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of the land owner interested persons
				33/1	Pvt.	Wet	0.0328 0.0909 0.2424	Shridhara, Gangappa, Krishnaiah, Lakshminarasappa, Gangappa, Kadirappa, Narasappa
				33/2				
				33/3				
				45/1	Pvt.	Wet	0.0328	Govinde Gowda
				45/2	Pvt.	Wet	0.0177	Govinde Gowda
				46	Pvt.	Wet	0.0621	Rajendra Prasad
				47	Pvt.	Wet	0.0657	Lakshamma, Puttarangamma, Sreenivasa Murthy
				48/1B	Pvt.	Wet	0.0748	Papanna
				48/2B	Pvt.	Wet	0.0253	Yellappa
				48/3B	Pvt.	Wet	0.0152	Yellappa
				49/2	Pvt.	Wet	0.101	Rangamma, Gangamma
				50/1	Pvt.	Wet	0.0909	Channarajaiah
				50/2	Pvt.	Bagayet	0.101	Gangaiah
				50/4	Pvt.	Wet	0.0653	Puttarangamma, G. Narayana Swamy, Lakshamma
				50/5	Pvt.	Wet	0.0653	Jayamma
				50/6	Pvt.	Wet	0.0631	Nagarathanamma
				51	Pvt.	Bagayet	0.1313	Chikkathimmaiah, Ashwathppa, Venkatasame Gowda
				52/1	Pvt.	Wet	0.1919	Nanjundappa
				52/2				Venkatashamappa
				53/2	Pvt.	Wet	0.005	N. Nanjamma, Vanajakshamma
				54/1	Pvt.	Wet/ bagayet	0.0505	Vanajakshamma, Ratnamma
				54/2	Pvt.	Wet/ bagayet	0.0657	Vanajakshamma, Ratnamma
				54/3	Pvt.	Wet	0.0505	Ratnamma, Vanajakshamma,
				65	Pvt.	Wet	0.005	Manjunatha
				66/1A	Pvt.	Dry	0.0505	Shanthakumari
				66/1B	Pvt.	Dry	0.09	Venkatachalapathy
				66/2	Pvt.	Wet	0.0808	Lakshmi Narasamma
				66/3	Pvt.	Wet	0.0512	Gangamma
				66/4	Pvt.	Wet	0.0505	Sathyamma
				66/5	Pvt.	Wet	0.0303	Gangappa, Dollagangappa, Kalappa
				66/6	Pvt.	Wet	0.0202	Gangappa, Doddagangappa
				67	Pvt.	Wet	0.005	Muddaiah
				68	Govt.	Kharab	0.303	Government Gomal Land
				69	Pvt.	Dry	0.1093	Ratnamma,
				92	Pvt.	Wet	0.1818	Obalappa, E.S.Ramesh Kumar
				93/2	Pvt.	Garden	0.0101	Gangappa
				93/3	Pvt.	Garden	0.0505	Gangappa, Lakshamma
				94	Pvt.	Garden/Wet	0.0364	Gangappa
				95/1	Pvt.	Garden/Wet	0.0152	Gangappa
				95/2	Pvt.	Garden	0.0225	Gangappa
				96	Pvt.	Garden/Wet	0.0404	Gangappa
				97	Govt.	kharab	0.009	Government Kharab
				99/1	Pvt.	Garden	0.0649	Gangappa
				99/2	Pvt.	Garden/Wet	0.1414	Kenchamma

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of Village	SurveyNo.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of the land owner interested persons
			Madanahali	110	Pvt.	Dry	0.3	Yerrappa, Hanumantharayappa, Ramakrishnappa, Gangadharappa, Venkataramanappa, Gangadharappa
				111/1	Pvt.	Dry	0.08	Rangamma, Gangadharappa, Nagappa, Lakshamma
				111/2	Pvt.	Dry	0.0664	Nagappa
				111/3	Pvt.	Dry	0.0606	Gangadharappa, Beerappa, Sanjeevarayappa
				118	Govt.	Kharab	0.0303	Government tank bed
				122	Govt.	Kharab	0.0404	Government Kharab
				124	Govt.	Kharab	0.0152	Government Kharab
				147	Govt.	Kharab	0.0331	Government Kharab
				149	Govt.	Kharab Gomala	0.2459	Government kharab
				151	Pvt. / Govt.	Dry	0.1494	Government Kharab and Thimmaiah
				151/P1				
				278	Pvt.	Dry	0.1111	Thimmaiah
				279/1	Pvt.	Dry	0.1010	Archana
				279/2	Pvt.	Dry	0.0612	Gangamma, Ashwathamma
				288/1	Pvt.	Dry	0.0808	Siddamma
				288/2	Pvt.	Dry	0.0909	Amaravathi
				288/3	Pvt.	Dry	0.0378	Mariswamy
				288/4	Pvt.	Dry	0.0505	Yetamma
				289	Pvt.	Dry	0.0237	Narasihmaiah
				299	Pvt.	Dry	0.0069	Thippakka
				300	Pvt.	Dry	0.2071	Gangamma
				302	Pvt.	Dry	0.1010	Mahaboob Basha
				303	Pvt.	Dry	0.1156	Hanumanthappa
				308/1	Pvt.	Dry	0.1010	Channamma, Ashwathanarayana, Gangadarappa, Mallikarjuna, Ravindranath
				309/2	Pvt.	Dry	0.0808	Narasihmareddy, Lakshmanareddy, Ashwathanarayana Reddy
				310	Pvt.	Dry	0.0808	Padmaja, Nandakishore
				311	Pvt.	Dry	0.0793	Padmaja, Nandakishore
				312	Pvt.	Dry	0.0817	Padmaja, Nandakishore
				313	Pvt.	Dry	0.1313	Venkataramanappa
			Mittenahalli	15	Pvt.	Dry	0.2827	APMC Gowribidanur, C.R. Venkatapati, Shanthamma
			Veera Gollahalli	2/1	Pvt.	Dry	0.0707	Gangappa, Gangamma, Venkataramanappa, Laxamma
				4	Pvt.	Garden	0.0973	Hanumantha Devaru
				5/1	Pvt.	Garden	0.042	Aswathanarayana Reddy
				5/2	Pvt.	Garden	0.0403	Nagappa
				5/3	Pvt.	Garden	0.0505	Nagappa
				6/1	Pvt.	Dry	0.0025	Nagappa
				6/2	Pvt.	Dry	0.0227	Nagappa
				6/3	Pvt.	Dry	0.0101	Dasappa
				6/4	Pvt.	Dry	0.0126	Lakshmikanthappa
				10	Pvt.	Garden	0.0291	K.A. Shankaranarayana Reddy, Lakshmi Devamma
				11	Pvt.	Garden	0.1212	Muddappa, Gangamma

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of Village	SurveyNo.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of the land owner interested persons
				67/1	Pvt.	Dry	0.6565	Gangappa, Ashwathappa, Lakshmipathy, Chikkarangappa, Gangadharappa, Srinivasa
				67/2	Pvt.	Dry	0.0505	M. Musheer Ahamad
			Hirebid-enuru	53/1	Pvt.	Dry	0.4242	Nyamath
				53/2	Pvt.	Dry	0.2222	Nyamath
				56/1	Pvt.	Dry	0.0757	Raghunatha Reddy , Hanumantha Reddy, Manjunatha Reddy
				56/2	Pvt.	Dry	0.3046	Raghunatha Reddy , Hanumantha Reddy, Manjunatha Reddy, Narasihma Reddy
				60/1	Pvt.	Dry	0.3030	Narasamma, Gangamma, Narasappa, Gangareddy, Krishnareddy
				62/3	Pvt.	Dry	0.1490	Shobha N Reddy
				62/4	Pvt.	Dry	0.3535	K.H. Krishnareddy
				63/3	Pvt.	Dry	0.1111	K.H Somashekara Reddy
				63/4	Pvt.	Dry	0.0581	K.H Somashekara Reddy
			Kurubarahalli	31	Pvt.	Dry	0.0202	Anjanappa
				180/4	Pvt.	Dry	0.0505	M.N. Mallikarjuna Reddy
		Chikaballapura	Gollahalli	17	Pvt.	(NAK)	0.1343	Dwarakanath Reddy, Ramanarppanm Trust
				41	Pvt.	(NAK)	0.0322	Dwarakanath Reddy, Ramanarppanm Trust
		Shidalagatta	Shidagal-agatta	250	Pvt.	Garden	0.0657	Acchappa,Seenappa,Balakrishna,Venkateshappa Govt.
				251/2	Pvt.	Garden	0.0294	Munisubbanna, Govt.
		Chinthamani	Amataga-nahalli	24	Govt.	Dry	0.0878	Government Land reserved for construction of residential buildings for villagers
				25/1	Pvt.	Dry	0.1414	Narayanamma
				25/3	Pvt.	Dry	0.003	A.N. Narasihma Reddy
				26	Pvt.	Dry	0.5177	A.S. Venkata Reddy, BEOChintamani, Narayana Reddy, Krishna Reddy
				27	Pvt.	Dry	0.0859	R. Narayana Reddy
				28	Pvt.	Dry	0.0124	Inam Land
				29/1 29/2 29/3 29/4	Pvt.	Dry	0.0177 0.0581 0.0682 0.0934	Gopala Krishna, V. Nagaraju, Venkatesh, Shankarappa
				30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/7	Pvt.	Dry	0.7376	Gopala Krishnappa,V. Nagaraju,Venkatesh, Shankarappa, A.N. Narasihma Reddy, A.N. Ashwath Reddy, Byamma
				33	Pvt.	Dry	0.0051	R. Narayana Reddy, R. Ramakrishna, Achamma, Adinarayanarangappa, Nagaraj, Jayamma, Rangappa, A.L. Nagaraj
				34/1	Pvt.	Dry	0.0956	A.C. Anjaneya Reddy
				35	Pvt.	Dry	0.0303	R. Narayana Reddy
				36	Pvt.	Dry	0.6829	R. Narayana Reddy
				37/1	Pvt.	Dry	0.1010	Gopala Krishnappa
				37/2A	Pvt.	Dry	0.6540	Acchamma, Adinarayanappa, A.L. Nagaraju
				38	Govt.	Dry	0.3131	Government Kharab

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of Village	SurveyNo.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of the land owner interested persons
			Uluvakaya-halli	94	Govt.	Dry	0.0050	Mekkam Inamti Land
				96	Govt.	Dry	0.0966	Turumala Devaru
				2	Pvt.	Dry	0.3156	Riyaz Ahamed
				3	Pvt.	Dry	0.5272	Riyaz Ahamed, Muniraju
				6	Pvt.	Dry	0.0101	Abdul Lateef
				13	Pvt.	Dry	0.8232	Gouse Peer, Anwar Pasha
				14/1	Pvt.	Dry	0.0479	Venkatamma
				14/2	Pvt.	Dry	0.1545	Venkateshappa, Munivenkata Rayappa
				15/2	Pvt.	Dry	0.0556	K. Narayana Swamy
				36	Pvt.	Dry	0.4448	Abdul Lateef, M. Anwar Pasha
2	Kolar	Mulbagal	Kadaripura	128	Pvt.	Wet	0.2605	Syed Khaleemulla
				129	Pvt.	Dry	0.1035	Shanthamma
				131/1	Pvt.	Dry	0.0455	Sikhander Baig, Jameel Baig
				132	Pvt.	Dry	0.3409	Abdul Rehman, Radhakrihnappa
				133	Pvt.	Wet	0.4343	Subramani, Shankrappa
				134/1	Pvt.	Dry	0.3737	Abdul Reheem, Padmavathamma
				135/1	Pvt.	Wet	0.1573	Rajendra, Anjappa, Ramachandrappa, Shivakumar.
			Virupaksh-aguttahalli	120/2A 120/2B	Pvt.	Dry	0.1717 0.2308	Sharadamma, Nagabhushana, Abdul Arif, Land acquired for NHAI
				121/2	Pvt.	Dry	0.0606	Thippanna, Shankrappa, Makbul Jhon
				122/2	Pvt.	Dry	0.1505	N. Sharadamma, Nagabhushana
				269	Pvt.	Dry	0.4272	Abdul Rahuf, Jabeertaj, Abdul Rehaman
				270	Pvt.	Dry	0.0535	Nagabhushana
				271/1	Pvt.	Dry	0.3838	Sayed tabarez, Jaburish, Syed shoyabed, Syed Saheed
				271/3B1	Pvt.	Dry	0.2020	N. Sharadamma, Nagabhushana

[F. No. RW/NH-12012/1/2011/SP(W-BanK) (B-2/A-2)/P-9]

Maya Prakash, Dy. Secy.